



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941

No. 212]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/ CHAITRA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

सं. 25/2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 239(अ). — सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 और 60 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, शिपिंग बिल तथा निर्यात का बिल (फॉर्म) विनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों को शिपिंग बिल तथा निर्यात का बिल (फॉर्म) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. शिपिंग बिल तथा निर्यात का बिल (फॉर्म) विनियम, 2017 में विनियम 2 के अंतर्गत फॉर्म एसबी I के स्थान पर और विनियम 3 के अंतर्गत फॉर्म III के स्थान पर, निम्नलिखित फॉर्मों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

फार्मएसबी 1
(विनियम 2 को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

एसबी सं. और तिथि		सीमाशुल्क स्टेशन कोड				आईईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]	
निर्यातक का नाम तथा पता		खरीददार का नाम तथा पता				सीमाशुल्क ब्रोकर तथा लायसेंस नं.	
द्वारा प्री कैरिएज		जलयान/उड़ान सं.				लदान का बंदरगाह	
प्रीकैरियर द्वारा प्राप्ति का स्थान		रोटेसन सं.				माल उतारने का बंदरगाह/माल उतारने वाला देश	
		विदेशी विनियम विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड		आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है					
		वाणिज्यिक बिल का विवरण:					
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि		बिल का मूल्य		बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर	
इनकोटर्म				निर्यात मूल्य का विश्लेषण i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट (डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ		मुद्रा धनराशि	
भुगतान की प्रकृति							
		कार्गो विवरण:					
कार्गो की प्रकृति				सकल भार		कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.		मार्क तथा सं.					
		मद स्तर विवरण :					
क्र. सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)	पीएमवी (जहाँ लागू हो)	सांख्यिकीय कोड	योजना कोड
		निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो :					
क्र. सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी0शु0अधिनि0 की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य	निर्यात शुल्क	उप कर	कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर		शुल्क भुगतान विवरण

[illegible]

ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात									
क्र.सं.	लायसैंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा			एसआईओएन
घ. जाँच बर्क/पुनर्निर्यात विवरण : [जाँच बर्क के दौरान जिन वस्तुओं पर कार्य किया गया उनके सहित आयात वस्तुओं से संबंधित विवरण]									
आगम बिल सं. एवं तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन आयात का कोड	आयातित वस्तुओं का विवरण	आयात की गई मात्रा	निर्यात वस्तुओं में काम में आई मात्रा		बॉण्ड तथा बी जी विवरण			प्रतिशत में मूल्य वृद्धि
कन्टेनर विवरण [यदि निर्यात कार्गो फैक्टरी में भरा गया कार्गो है]									
क्र.सं.	कन्टेनर का प्रकार	कन्टेनर का आकार		कन्टेनर संख्या					सील सं.
घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि									

वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

1. बिल(इनवायस) []

2. पैकिंग सूची []

3. निर्यात लायसैंस []

4. मॉग पत्र []

5. संविदा की स्वीकृति []

6. साख पत्र []

7. क्यू सी प्रमाण पत्र []

8. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज []

9. अन्य कोई (विवरण दें) []

फार्म एसबी 1
(विनियम 2 को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

अनुलिपि

एसबी सं. और तिथि	सीमाशुल्क कोड	स्टेशन				आईईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]
निर्यातक का नाम तथा पता	खरीददार का नाम तथा पता					सीमाशुल्क ब्रोकर तथा लायसेंस नं.
द्वारा प्री केरिएज		जलयान/उड़ान सं.				लदान का बंदरगाह
प्रीकैरियर द्वारा प्राप्ति का स्थान		रोटेशन सं.				माल उतारने का बंदरगाह/माल उतारने वाला देश
विदेशी विनियम विवरण:						
अधिकृत डीलर कोड		आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है				
वाणिज्यिक बिल का विवरण:						
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि	बिल का मूल्य	बिल की मुद्रा				सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर
इनकोटर्म				निर्यात मूल्य का विश्लेषण i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट(डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ		
भुगतान की प्रकृति				मुद्रा धनराशि		
कार्गो विवरण:						

कार्गों की प्रकृति						सकल भार						कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.				मार्क तथा सं.									
				मद स्तर विवरण :									
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)		पीएमवी (जहाँ लागू हो)			सांख्यिकीय कोड	योजना कोड			
				निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो :									
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी.शु.अधिनि. की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य	निर्यात शुल्क		उप कर				कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर धनराशि (संख्या तथा शब्दों में)	शुल्क भुगतान विवरण			
			दर	धनराशि	दर	धनराशि							
				आईजीएसटी विवरण :									
क्या आपूर्ति आईजीएसटी भुगतान पर निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)		भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)						बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण			
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य		वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य											
बिल सं. तथा तिथि (जीएसटी टैक्स इनवायस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जारी)	मद क्र.सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीएसटी अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	क्या मुआवजा सेस अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	दर जिस पर आईजीएसटी अदा किया गया है	दर जिस पर मुआवजा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीएसटी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि			
				निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:									
				क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :									

क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तृय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी[जीएसटीआईएन/यू आईएन/पैन इत्यादि]	लायसैंस सं.	पंजीकरण सं.					पंजीकरण की तिथि
			ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए[योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:					
क्र.सं.	लायसैंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा		एसआईओ एन
			ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात					
क्र.सं.	लायसैंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसैंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा		एसआईओ एन
	घ. जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण :[जॉब वर्क के दौरान जिन वस्तुओं पर कार्य किया गया उनके सहित आयात वस्तुओं से संबंधित विवरण]							
आगम बिल सं. एवं तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन आयात का कोड	आयातित वस्तुओं का विवरण	आयात की गई मात्रा	निर्यात वस्तुओं में काम में आई मात्रा		बॉण्ड तथा बी जी विवरण		प्रतिशत में मूल्य वृद्धि
			कन्टेनर विवरण[यदि निर्यात कार्गो फैक्टरी में भरा गया कार्गो है]					
क्र.सं.	कन्टेनर का प्रकार	कन्टेनर का आकार		कन्टेनर संख्या				सील सं.

			घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि				

वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

अनुलिपि

मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74/75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियमावली, 1995/सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ज्यूटी ड्राबैक नियमावली, 2017 के अंतर्गत रु.के ड्राबैक का दावा करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निर्यात वस्तुएँ नयी/....से प्रयुक्त हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों तथा उन शर्तों जिनके अधीन ड्राबैक नियम प्रयोज्य हैं, का अनुपालन किया है।				1. बिल [] 2. पैकिंग सूची [] 3. निर्यात लायसेंस [] 4. मॉग पत्र [] 5. संविदा की स्वीकृति [] 6. साख पत्र [] 7. क्यू सी प्रमाण पत्र [] 8. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज [] 9. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दें) []				
1. बैंक का नाम और पता 2. खाता सं. 3. ड्राबैक वही सं.								
एसबी में मद सं.	ड्राबैक सूची की क्र. सं.	मात्रा/भार जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	मूल्य जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	ड्राबैक की दर		ड्राबैक की धनराशि		कुल ड्राबैक
				सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	
शब्दों में कुल धनराशि : रुपया								
निर्यातक के हस्ताक्षर /सीबी								
'लैंट एक्सपोर्ट' सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				'शिपमेंट के लिए अनुज्ञात' सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				
मूल एण्ट्री से जाँचने के बाद जलयान का नाम बदल दिया जाये बहिष्कृत अथवा न भेजे गए भाग के लिएको नया प्रदान किया जाये								
सीबी/पार्टी को सौंपा गया सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर				फीस रु. प्राप्त किया कैशियर				
बोर्ड पर प्राप्त सामग्री तिथि जलयान के मास्टर के हस्ताक्षर				शिपमेंट की तिथि सीमाशुल्क के अधिकारी के हस्ताक्षर				

फार्म एसबी 1
(विनियम 2 को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

तीसरी प्रति

एसबी सं. और तिथि		सीमाशुल्क स्टेशन कोड						आईईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]	
निर्यातक का नाम तथा पता		खरीददार का नाम तथा पता						सीमाशुल्क ब्रोकर तथा लायसैंस नं.	
द्वारा प्री केरिएज		जलयान/उड़ान सं.						लदान का बंदरगाह	
प्रीकैरियर द्वारा प्राप्ति का स्थान		रोटेसन सं.						माल उतारने का बंदरगाह/माल उतारने वाला देश	
				विदेशी विनियम विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड				आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है					
				वाणिज्यिक बिल का विवरण:					
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि		बिल का मूल्य		बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर		कुल मूल्य (रुपये में)	
इनकोटर्म						निर्यात मूल्य का विश्लेषण मुद्रा धनराशि i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट (डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ			
भुगतान की प्रकृति									
				कार्गो विवरण:					
कार्गो की प्रकृति				सकल भार				कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.				मार्क तथा सं.					
				मद स्तर विवरण :					
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)		पीएमवी (जहाँ लागू हो)		सांख्यिकीय कोड	योजना कोड
				निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो :					
क्र.सं.	सीमाशुल्क टेरिफ	सी.शु. अधिति. की धारा 14 के	निर्यात शुल्क		उप			कुल निर्यात शुल्क एवं	शुल्क भुगतान

	शीर्ष	अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य					कर			उपकर धनराशि(संख्या तथा शब्दों में)	विवरण
			दर	धनराशि	दर			धनराशि			
आईजीएसटी विवरण :											
क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)		भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है(हाँ/नहीं)						बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण	
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य		वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य									
बिल सं. तथा तिथि (जीएसटी टैक्स इनवायस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जा री)	मद क्र.सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीए सटी अदा किया गया है (हाँ/ नहीं)	क्या मुआव जा सेस अदा किया गया है(हाँ/ नहीं)	दर जिस पर आईजीएस टी अदा किया गया है	दर जिस पर मुआवजा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीए सटी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि	
निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:											
क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :											
क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तुय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी[जीएसटीआईएन/यूआई एन/पैन इत्यादि]		लायसेंस सं.			पंजीकरण सं.					पंजीकरण की तिथि
ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए[योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:											

क्र. सं.	लायसंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा			एसआईओएन
				ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात					
क्र. सं.	लायसंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा			एसआईओएन
		घ. जॉब वर्क/पुनरनिर्यात विवरण : [जॉब वर्क के दौरान जिन वस्तुओं पर कार्य किया गया उनके सहित आयात वस्तुओं से संबंधित विवरण]							
आगम बिल सं. एवं तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन आयात का कोड	आयातित वस्तुओं का विवरण	आयात की गई मात्रा	निर्यात वस्तुओं में काम में आई मात्रा		बॉण्ड तथा बी जी विवरण			प्रतिशत में मूल्य वृद्धि
				कन्टेनर विवरण [यदि निर्यात कार्गो फैक्टरी में भरा गया कार्गो है]					
क्र. सं.	कन्टेनर का प्रकार	कन्टेनर का आकार			कन्टेनर संख्या				सील सं.
				घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि					

वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

तीसरी प्रति

मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74/75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियमावली, 1995/सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी ड्राबैक नियमावली, 2017 के अंतर्गत रु0.....के ड्राबैक का दावा करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निर्यात वस्तुएँ नयी/....से प्रयुक्त हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों तथा उन शर्तों जिनके अधीन ड्राबैक नियम प्रयोज्य हैं, का अनुपालन किया है।				1. बिल [] 2. पैकिंग सूची [] 3. निर्यात लायसैंस [] 4. मॉग पत्र [] 5. संविदा की स्वीकृति [] 6. साख पत्र [] 7. क्यू सी प्रमाण पत्र [] 8. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज [] 9. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दें) []				
1. बैंक का नाम और पता 2. खाता सं. 3. ड्राबैक वही सं.								
एसबी में मद सं.	ड्राबैक सूची की क्र.सं.	मात्रा/भार जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	मूल्य जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	ड्राबैक की दर		ड्राबैक की धनराशि		कुल ड्राबैक
				सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	
शब्दों में कुल धनराशि : रूपया								
निर्यातक के हस्ताक्षर /सीबी								
विभागीय अधिकारी के लिए सत्यापित किया जाता है कि व्यक्तिगत जाँच/परीक्षण इत्यादि के आधार पर विवरण सही पाये जाने की शर्त के अधीन यथोपरोक्त दावा की गई ड्राबैक की धनराशि स्वीकार्य है।				गणना की जाँच की गई।		पूर्व रसीद फार्म ड्रा बैक के रूप में रु.धनराशि प्राप्त की		
ए ओ के हस्ताक्षर तथा मुहर				कांस्टिबल		रेवेन्यू टिकट निर्यातक/सीबी के हस्ताक्षर		
'लैट एक्सपोर्ट'				'शिपमेन्ट के लिए अनुज्ञात'				
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				
स्वीकृति के लिए दावा पूर्व लेखा परीक्षित रु.के लिए दावा पारित निरीक्षक(ऑडिट) अधीक्षक/सहा. आयु. रु.(रूपया.....) के लिए दावा पंजीकरण संख्याजारी बैंक सं.....दिनांक								
संबंधित लिपिक				अधिकारी				
जाँच आदेश एवं रिपोर्ट								

फार्म एसबी 1
(विनियम 2 को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

चतुर्थ प्रति

एसबी सं. और तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन कोड				आईसीसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]
निर्यातक का नाम तथा पता	खरीददार का नाम तथा पता				सीमाशुल्क ब्रोकर तथा तथा लायसेंस नं.
द्वारा प्री केरिएज	जलयान/उड़ान सं.				लदान का बंदरगाह
प्रीकैरियर द्वारा प्राप्ति का स्थान	रोटेसन सं.				माल उतारने का बंदरगाह/माल उतारने वाला देश
विदेशी विनियम विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड	आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है				
वाणिज्यिक बिल का विवरण:					
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि	बिल का मूल्य	बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर	कुल मूल्य(रूपये में)
इनकोटर्म				निर्यात मूल्य का विश्लेषण मुद्रा धनराशि i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट(डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ	
भुगतान की प्रकृति					
कार्गो विवरण:					
कार्गो की प्रकृति		सकल भार			कुल भार
पैकेजों का प्रकार एवं सं.	मार्क तथा सं.				
मद स्तर विवरण :					
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)	पीएमवी(जहाँ लागू हो)
					सांख्यिकीय कोड
					योजना कोड
निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो :					
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी0शु0अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय	निर्यात शुल्क	उप कर	कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर धनराशि(संख्या)
					शुल्क भुगतान विवरण

		मूल्य							तथा शब्दों में)	
			दर	धनराशि	दर		धनराशि			
				आईजीएसटी विवरण :						
क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)	भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है(हाँ/नहीं)					बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण		
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य	वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य									
बिल सं. तथा तिथि(जीएस टी टैक्स इनवायस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जारी)	मद क्र.सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीएसटी अदा किया गया है(हाँ/नहीं)	क्या मुआवजा सेस अदा किया गया है(हाँ/ नहीं)	दर जिस पर आईजीएस टी अदा किया गया है	दर जिस पर मुआव जा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीएस टी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि
				निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:						
				क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :						
क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तृय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी[जीएसटीआईएन/यूआईएन/ पैन इत्यादि]			लायसैंस सं.	पंजीकरण सं.				पंजीकरण की तिथि	
				ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए[योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:						

क्र.सं.	लायसेंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा			एसआईओएन
			ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात						
क्र.सं.	लायसेंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा			एसआईओएन
	घ. जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण :[जॉब वर्क के दौरान जिन वस्तुओं पर कार्य किया गया उनके सहित आयात वस्तुओं से संबंधित विवरण]								
आगम बिल सं. एवं तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन आयात का कोड	आयातित वस्तुओं का विवरण	आयात की गई मात्रा	निर्यात वस्तुओं में काम में आई मात्रा		बॉण्ड तथा वी जी विवरण			प्रतिशत में मूल्य वृद्धि
			कन्टेनर विवरण[यदि निर्यात कार्गो फैक्टरी में भरा गया कार्गो है]						
क्र.सं.	कन्टेनर का प्रकार	कन्टेनर का आकार		कन्टेनर संख्या				सील सं.	
			घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यात के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि						

वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल
(निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि)

चतुर्थ प्रति

भेजे गये.....केसेज/बेल्स /पैकेजो/कन्टेनरों के लिए द्वारा जारी
.....की मेट की रसीद सं.....को सत्यापित किया गया। जो निवारक
पर्यवेक्षण के अधीन.....से.....को रवाना हुए

सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर

अथवा

इस शिपिंग बिल में घोषित किए गए शिपमेन्ट को निवारक पर्यवेक्षण के अधीन पूर्णतः/आंशिक(हवाई मार्ग द्वारा भेजी गई मात्रा का विनिर्दिष्ट करें
).....को उड़ान सं.....
एडब्ल्यूबी सं.....ईजीएम सं.....

हवाई मार्ग से भेजा गया

सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म एसबी II

(विनियम 2 को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राईवेट		इनवायस सं. एवं तिथि	एसबी सं. तथा तिथि
			आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)			वस्तुओं का मूल राज्य
सीमाशुल्क ब्रोकर्स लायसेंस नं.			स्थगित क्रेडिट [] संयुक्त उद्यम [] रूपया क्रेडिट [] अन्य []
द्वारा प्री कैरिएज	पूर्व कैरिएज द्वारा प्राप्ति का स्थान	शिपमेन्ट का प्रकार :	आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि
जलयान/उड़ान सं..	रोटेशन सं.		सीधी बिक्री [] कनसाइनमेन्ट निर्यात [] अन्य(विनिर्दिष्ट करें) []
	लदान का पोर्ट		
	<input type="text"/>		

		अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []			
माल उतराईका पोर्ट []		सी.शु.अधिनि.की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर []			
क्र.सं.	मार्क तथा पैकेजों का प्रकार सं. तथा सं.कंटेनर	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य _____	
कुल भार	सं.				
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यातमूल्य का विश्लेषण		मुद्रा	धनराशि	पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करने की उम्मीद करता है।	
एफओबी मूल्य				मुद्रा.....	
भाड़ा				धनराशि	
बीमा		दर			
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					
आगम बिल सं. एवं तिथि		जलयान का नाम तथा रोटेशन सं.	पैकेजों की सं.	बॉण्ड सं. तथा तिथि	बॉण्डेड भाँडागार का नाम
घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि					

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

	प्रस्तुत दस्तावेज 1. इनवायस [] 2. पैकिंग सूची 3. माँगपत्र 4. संविदा की स्वीकृति 5. साख पत्र 6. क्यू सी प्रमाणपत्र 7. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज 8. अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)
--	--

फार्म एसबी II
(विनियम 2 को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

अनुलिपि

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राईवेट		इनवायस सं. एवं तिथि		एसबी सं. तथा तिथि	
				आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]	
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)				वस्तुओं का मूल राज्य	
सीमाशुल्क ब्रोकर्स लायसेंस नं.				स्थगित क्रेडिट [] संयुक्त उद्यम [] रूपया क्रेडिट [] अन्य []	
द्वारा प्री केरिएज	पूर्व केरिएर द्वारा प्राप्ति का स्थान	शिपमेन्ट का प्रकार :		आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि	
जलयान/उड़ान सं.	रोटेशन सं.			सीधी बिक्री [] कनसाइनमेन्ट निर्यात [] अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []	
	लदान का पोर्ट <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []				
माल उतराई का पोर्ट <input type="checkbox"/>	सी.शु.अधिनियम 0 की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर <input type="checkbox"/>				
क्र.सं.	मार्क तथा पैकेजों का प्रकार सं. तथा सं. कंटेनर	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य	
कुल भार					
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यात मूल्य का विश्लेषण		मुद्रा	धनराशि	पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करने की उम्मीद करता है।	
एफओबी मूल्य				मुद्रा	
भाड़ा				धनराशि	
बीमा		दर			
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					
आगम बिल सं. एवं तिथि		जलयान का नाम तथा रोटेशन सं.	पैकेजों की सं.	बॉण्ड सं. तथा तिथि	बॉण्डेड भौंडागार का नाम

घोषणा :

मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं।

मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं।

मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं
निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

अनुलिपि

	प्रस्तुत दस्तावेज 1. इनवायस [] 2. पैकिंग सूची 3. माँगपत्र 4. संविदा की स्वीकृति 5. साख पत्र 6. क्यू सी प्रमाणपत्र 7. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज 8. अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)
--	---

‘लैंट एक्सपोर्ट’	‘शिपमेन्ट के लिए अनुज्ञात’
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
मूल एण्ट्री से जाँचने के बाद जलयान का नाम बदल दिया जाये फीस रु0बहिष्कृत अथवा न भेजे गए भाग के लिएको नया प्रदान किया जाये प्राप्त किया	
सीबी/पार्टी को सौंपा गया	सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
	कैशियर
बोर्ड पर प्राप्त सामग्री तिथि	शिपमेन्ट की तिथि
जलयान के मास्टर के हस्ताक्षर	सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
जाँच आदेश तथा रिपोर्ट	

फार्म एसबी II
(विनियम 2 को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

तृतीय प्रति

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राईवेट		इनवायस सं. एवं तिथि		एसबी सं. तथा तिथि	
				आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]	
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)				वस्तुओं का मूल राज्य	
सीमाशुल्क ब्रोकरस लायसैंस नं.				स्थगित क्रेडिट [] संयुक्त उद्यम [] रूपया क्रेडिट [] अन्य [] आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि	
द्वारा प्री केरिएज	पूर्व केरिएर द्वारा प्राप्ति का स्थान	शिपमेन्ट का प्रकार :			
जलयान/उड़ान सं.	रोटेशन सं.			सीधी बिक्री [] कनसाइनमेन्ट निर्यात [] अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []	
	लदान का पोर्ट <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []				
माल उतराई का पोर्ट <input type="checkbox"/>	सी.शु.अधिन. की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर <input type="checkbox"/>				
क्र.सं.	मार्क तथा पैकेजों का प्रकार सं. तथा सं. कंटेनर सं.	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य _____	
कुल भार					
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यात मूल्य का विश्लेषण		मुद्रा	धनराशि	पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करने की उम्मीद करता है।	
एफओबी मूल्य				मुद्रा.....	
भाड़ा				धनराशि	
बीमा		दर			
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					
आगम बिल सं. एवं तिथि		जलयान का नाम तथा रोटेशन सं.	पैकेजों की	बॉण्ड सं. तथा	बॉण्डेड भौंडागार का नाम

		सं.	तिथि	
घोषणा :				
मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं।				
मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं।				
मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि				

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल
(निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि) तृतीय प्रति

भेजे गये.....केसेज/बेल्स /पैकेजों/कन्टेनरों के लिए	द्वारा जारी
.....की मेट की रसीद सं.....	को सत्यापित किया गया। जो निवारक
पर्यवेक्षण के अधीन.....से.....	को रवाना हुए
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	
अथवा	
इस शिपिंग बिल में घोषित किए गए शिपमेंट को निवारक पर्यवेक्षण के अधीन पूर्णतः/आंशिक(हवाई मार्ग द्वारा भेजी गई मात्रा का विनिर्दिष्ट करें).....को उड़ान सं.....	
एडब्ल्यू सं.....ईजीएम सं.....	
हवाई मार्ग से भेजा गया	
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	

एसबी III
(विनियम 3 को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

मूल

एसबी सं. और तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन कोड				आईसीसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]
निर्यातक का नाम तथा पता	खरीददार का नाम तथा पता				सीमाशुल्क ब्रोकर तथा तथा लायसेंस नं.
द्वारा प्री कैरिएज		जलयान/उड़ान सं.			लदान का बंदरगाह
प्रीकैरियर द्वारा प्राप्ति का स्थान	रोटेशन सं.				माल उतारने का बंदरगाह/माल उतारने वाला देश
विदेशी विनियम विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड	आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है				
वाणिज्यिक बिल का विवरण:					

वाणिज्यिक विल सं. तथा तिथि	विल का मूल्य	विल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर			कुल मूल्य(रुपये में)
इनकोटर्म				निर्यात मूल्य का विश्लेषण मुद्रा धनराशि i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट(डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ			
भुगतान की प्रकृति							
कार्गो विवरण:							
कार्गो की प्रकृति				सकल भार			कुल भार
पैकेजों का प्रकार एवं सं.				मार्क तथा सं.			
मद स्तर विवरण :							
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)	पीएमवी(जहाँ लागू हो)		सांख्यिकीय कोड योजना कोड
निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हों :							
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी.शु.अधिति. की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य	निर्यात शुल्क	उप कर			कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर धनराशि (संख्या तथा शब्दों में)
			दर धनराशि	दर धनराशि			
आईजीएसटी विवरण :							
क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)	भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो	क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है(हाँ/नहीं)					बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य	वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य						

[illegible]

		घ. जाँब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण :[जाँब वर्क के दौरान जिन वस्तुओं पर कार्य किया गया उनके सहित आयात वस्तुओं से संबंधित विवरण]							
आगम विल सं. एवं तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन आयात का कोड	आयातित वस्तुओं का विवरण	आयात की गई मात्रा	निर्यात वस्तुओं में आई मात्रा		बॉण्ड तथा बी जी विवरण			प्रतिशत में मूल्य वृद्धि
				कन्टेनर विवरण[यदि निर्यात कार्गो फैक्टरी में भरा गया कार्गो है]					
क्र.सं.	कन्टेनर का प्रकार	कन्टेनर का आकार		कन्टेनर संख्या					सील सं.
				घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि					

वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

1. बिल(इनवायस) []
2. पैकिंग सूची []
3. निर्यात लायसैंस []
4. माँग पत्र []
5. संविदा की स्वीकृति []
6. साख पत्र []
7. क्यू सी प्रमाण पत्र []
8. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज []
9. अन्य कोई (विवरण दें) []

अनुलिपि

एसबी सं. और तिथि		सीमाशुल्क स्टेशन कोड						आईईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]	
निर्यातक का नाम तथा पता		खरीददार का नाम तथा पता						सीमाशुल्क ब्रोकर तथा तथा लायसेंस नं.	
लॉरी नं./माल गाड़ी तथा वैन सं.	से चलने वाली						डिलीवरी का स्थान	
		स्थल सीमाशुल्क स्टेशन अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							
				विदेशी विनिमय विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड		आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है							
				वाणिज्यिक बिल का विवरण:					
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि		बिल का मूल्य		बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर		कुल मूल्य(रुपये में)	
इनकोटर्म						निर्यात मूल्य का विश्लेषण मुद्रा धनराशि i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. ब्रूट(डिसकाउंट) vi. अन्य कटौतियाँ			
भुगतान की प्रकृति									
				कार्गो विवरण:					
कार्गो की प्रकृति				सकल भार				कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.				मार्क तथा सं.					
				मद स्तर विवरण :					
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)		पीएमवी(जहाँ लागू हो)		सांख्यिकीय कोड	योजना कोड
				निर्यात ड्यूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो :					
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी.शु.अधिति. की धारा 14 के	निर्यात शुल्क		उप कर			कुल निर्यात शुल्क एवं	शुल्क भुगतान

		अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य							उपकर धनराशि (संख्या तथा शब्दों में)	विवरण
			दर	धनराशि	दर		धनराशि			
			आईजीएसटी विवरण :							
क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)	भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है(हाँ/नहीं)						बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण	
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य	वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य									
बिल सं. तथा तिथि (जीएसटी टैक्स इनवायस, क्रे डिट एण्ड डेबिट नोट्स रूलस 2017 के अंतर्गत जारी)	मद क्र.सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीएस टी अदा किया गया है(हाँ/नहीं)	क्या मुआवजा सेस अदा किया गया है (हाँ/ नहीं)	दर जिस पर आईजीए सटी अदा किया गया है	दर जिस पर मुआवजा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीएस टी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि
			निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:							
			क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :							
क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तृतीय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी[जीएसटीआईएन/यूआ ईएन/पैन इत्यादि]		लायसेंस सं.		पंजीकरण सं.				पंजीकरण की तिथि	
			ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए[योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:							

वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

अनुलिपि

मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74/75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियमावली, 1995/सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी ड्राबैक नियमावली, 2017 के अंतर्गत रु.....के ड्राबैक का दावा करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निर्यात वस्तुएँ नयी/....से प्रयुक्त हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों तथा उन शर्तों जिनके अधीन ड्राबैक नियम प्रयोज्य हैं, का अनुपालन किया है।				1. बिल [] 2. पैकिंग सूची [] 3. निर्यात लायसेंस [] 4. मॉग पत्र [] 5. संविदा की स्वीकृति [] 6. साख पत्र [] 7. क्यू सी प्रमाण पत्र [] 8. पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज [] 9. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दें) []				
1. बैंक का नाम और पता 2. खाता सं. 3. ड्राबैक बही सं.								
एसबी में मद सं.	ड्राबैक सूची की क्र.सं.	मात्रा/भार जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	मूल्य जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	ड्राबैक की दर		ड्राबैक की धनराशि		कुल ड्राबैक
				सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	
शब्दों में कुल धनराशि : रूपया								
निर्यातक के हस्ताक्षर /सीबी								
'लैंट एक्सपोर्ट' सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				'शिपमेन्ट के लिए अनुज्ञात' सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				
मूल एण्ट्री से जॉचने के बाद कैरियर का नाम तथा लॉरी सं./मालगाड़ी तथा वेंगन सं. बदल दिया जाये फीस रु0 बहिष्कृत अथवा न भेजे गए भाग के लिएको नया प्रदान किया जाये प्राप्त किया सीबी/पार्टी को सौंपा गया सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर कैशियर								
बोर्ड पर प्राप्त सामग्री तिथि कैरियर के लिए				शिपमेंट की तिथि सीमाशुल्क के अधिकारी के हस्ताक्षर				
जॉच आदेश एवं रिपोर्ट								

फार्म एसबी III
(विनियम 3को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

तृतीय प्रति

एसबी सं. और तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन कोड				आईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]
निर्यातक का नाम तथा पता	खरीददार का नाम तथा पता				सीमाशुल्क ब्रोकर तथा तथा लायसेंस नं.
लॉरी नं./माल गाड़ी तथा वेंगन सं.से चलने वाली				डिलीवरी का स्थान

		स्थल सीमाशुल्क स्टेशन अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							
				विदेशी विनिमय विवरण:					
अधिकृत डीलर कोड		आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है							
				वाणिज्यिक बिल का विवरण:					
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि		बिल का मूल्य		बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर		कुल मूल्य (रूपये में)	
इनकोटर्म						निर्यात मूल्य का विश्लेषण i. एफओबी ii. भाड़ा iii. बीमा iv. कमीशन v. छूट (डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ		मुद्रा धनराशि	
भुगतान की प्रकृति									
				कार्गो विवरण:					
कार्गो की प्रकृति				सकल भार				कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.		मार्क तथा सं.							
				मद स्तर विवरण :					
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)	पीएमवी (जहाँ लागू हो)		सांख्यिकीय कोड	योजना कोड	
				निर्यात छूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हों :					
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी.शु.अधि नि. की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य	निर्यात शुल्क	उप कर		कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर धनराशि (संख्या तथा शब्दों में)	शुल्क भुगतान विवरण		
			दर धनराशि	दर	धनराशि				

				आईजीएसटी विवरण :						
क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)	भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)						बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण	
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य	वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य									
बिल सं. तथा तिथि (जीएसटी टैक्स इनवायस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जारी)	मद क्र. सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीएसटी अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	क्या मुआवजा सेस अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	दर, जिस पर आईजीएसटी अदा किया गया है	दर, जिस पर मुआवजा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीएसटी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि
				निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:						
				क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :						
क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तृतीय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी [जीएसटीआईएन/यू आईएन/पैन इत्यादि]		लायसंस सं.	पंजीकरण सं.					पंजीकरण की तिथि	
			ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए [योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:							
क्र.सं.	लायसंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसंस में क्र.सं.	काम में आये निवेशों की मात्रा				एसआईओएन	
			ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात							

तीसरी प्रति

<p>मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74/75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियमावली, 1995/सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी ड्राबैक नियमावली, 2017 के अंतर्गत रु0.....के ड्राबैक का दावा करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निर्यात वस्तुएँ नयी/....से प्रयुक्त हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों तथा उक्त शर्तों</p>	<p>1. बिल []</p> <p>2. पैकिंग सूची []</p> <p>3. निर्यात लायसेंस []</p> <p>4. माँग पत्र []</p> <p>5. संविदा की स्वीकृति []</p> <p>6. साख पत्र []</p>
--	---

जिनके अधीन ड्राबैक नियम प्रयोज्य हैं, का अनुपालन किया है।				7.क्यू सी प्रमाण पत्र [] 8.पोर्ट ट्रस्ट दस्तावेज [] 9.अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दें) []				
1. बैंक का नाम और पता 2. खाता सं. 3. ड्रा बैंक बही सं.								
एसबी में मद सं.	ड्राबैक सूची की क्र.सं.	मात्रा/भार जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	मूल्य जिस पर ड्राबैक का दावा किया गया	ड्राबैक की दर		ड्राबैक की धनराशि		कुल ड्राबैक
				सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	
शब्दों में कुल धनराशि : रूपया								
निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी								
विभागीय अधिकारी के लिए सत्यापित किया जाता है कि व्यक्तिगत जाँच/परीक्षण इत्यादि के आधार पर विवरण सही पाये जाने की शर्त के अधीन यथोपरोक्त दावा की गई ड्राबैक की धनराशि स्वीकार्य है।				गणना की जाँच की गई।		पूर्व रसीद फार्म ड्रा बैंक के रूप में रु.धनराशि प्राप्त की		
ए ओ के हस्ताक्षर तथा मुहर				काम्पटिस्ट		रेवेन्यू टिकट निर्यातक/सीबी के हस्ताक्षर		
'लेंट एक्सपोर्ट'				'शिपमेन्ट के लिए अनुज्ञात'				
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर				
स्वीकृति के लिए दावा पूर्व लेखा परीक्षित निरीक्षक(ऑडिट)				रु.....के लिए दावा पारित अधीक्षक/सहा.आयु.				
रु.....(रुपया.....) के लिए दावा पंजीकरण संख्या				जारी बैंक सं.....दिनांक				
संबंधित लिपिक				अधिकारी				
जाँच आदेश एवं रिपोर्ट								

फार्म एसबी III
(विनियम 3को देखें)
वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

चतुर्थ प्रति

एसबी सं. और तिथि	सीमाशुल्क स्टेशन कोड				आईईसी कोड [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि यथा प्रयोज्य]
निर्यातक का नाम तथा पता	खरीददार का नाम तथा पता				सीमाशुल्क ब्रोकर तथा तथा लायसैंस नं.
लॉरी नं./माल गाड़ी तथा वैन सं.से चलने वाली				डिलीवरी का स्थान

		स्थल सीमाशुल्क स्टेशन अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
		विदेशी विनिमय विवरण:						
अधिकृत डीलर कोड		आरबीआई अधित्याग सं. एवं तिथि, यदि कोई है						
		वाणिज्यिक बिल का विवरण:						
वाणिज्यिक बिल सं. तथा तिथि	बिल का मूल्य	बिल की मुद्रा		सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर			कुल मूल्य(रूपये में)	
इनकोटर्म				निर्यात मूल्य का विश्लेषण मुद्रा धनराशि i. एफओबी ii. भाड़ा iii. व्रीमा iv. कमीशन v. छूट(डिस्काउंट) vi. अन्य कटौतियाँ				
भुगतान की प्रकृति								
		कार्गो विवरण:						
कार्गो की प्रकृति			सकल भार				कुल भार	
पैकेजों का प्रकार एवं सं.		मार्क तथा सं.						
		मद स्तर विवरण :						
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों की सं. तथा प्रकार	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (एफओबी)	पीएमवी(जहाँ लागू हो)		सांख्यिकीय कोड	योजना कोड
		निर्यात झूटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हों :						
क्र.सं.	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सी.शु.अधिनि. की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारणीय मूल्य	निर्यात शुल्क		उप कर		कुल निर्यात शुल्क एवं उपकर धनराशि (संख्या तथा शब्दों में)	शुल्क भुगतान विवरण
			दर	धनराशि	दर	धनराशि		
		आईजीएसटी विवरण :						

क्या आईजीएसटी भुगतान पर आपूर्ति निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)		भुगतान की गई आईजीएसटी की कुल धनराशि, यदि लागू हो		क्या आईजीएसटी का भुगतान किए बिना आपूर्ति बॉण्ड अथवा वचन पत्र के अंतर्गत निर्यात के लिए है (हाँ/नहीं)								बॉण्ड अथवा वचन पत्र का विवरण	
वस्तुओं की आपूर्ति का कुल मूल्य		वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य											
बिल सं. तथा तिथि (जीएस टी टैक्स इनवायस, क्रेडिट एण्ड डेबिट नोट्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जारी)	मद क्र. सं.	सीटीएच	वस्तु विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य	क्या आईजीएस टी अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	क्या मुआवजा सेस अदा किया गया है (हाँ/नहीं)	दर, जिस पर आईजीएस टी अदा किया गया है	दर, जिस पर मुआवजा सेस अदा किया गया है	भुगतान किए गए आईजीएस टी की धनराशि	भुगतान किए गए मुआवजा सेस की धनराशि			
				निर्यात योजना/जॉब वर्क/पुनर्निर्यात विवरण:									
				क. ईपीसीजी योजना [योजना कोड] :									
क्या निर्यात तृतीय पार्टी निर्यात है	तृतीय पार्टी निर्यात के मामले में विनिर्माता का आईईसी[जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि]			लायसेंस सं.	पंजीकरण सं.						पंजीकरण की तिथि		
				ख. अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए[योजना कोड] [निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए गए निवेशों का विवरण]:									
क्र.सं.	लायसेंस सं. तथा पंजीकरण सं.	निर्यात वस्तुओं का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.	निर्यात मात्रा	विनिर्माण में काम में आये निवेशों का विवरण तथा लायसेंस में क्र.सं.		काम में आये निवेशों की मात्रा					एसआईओएन		
				ग. अग्रिम प्राधिकार के जारी किए जाने की प्रत्याशा में वस्तुओं का निर्यात									

फार्म एसबी IV

(विनियम 3 को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

मूल

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राइवेट		इनवायस सं. एवं तिथि		एसबी सं. तथा तिथि	
				आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]	
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)				वस्तुओं का मूल राज्य	
सीमाशुल्क ब्रोकर्स लायसेंस नं.				स्थगित क्रेडिट [] संयुक्त उद्यम [] रूपया क्रेडिट [] अन्य [] आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि	
द्वारा प्री केरिएज	पूर्व केरिएज द्वारा प्राप्ति का स्थान	शिपमेन्ट का प्रकार :			
जलयान/उड़ानसं..	रोटेशन सं.			सीधी बिक्री [] कनसाइनमेन्ट निर्यात [] अन्य(विनिर्दिष्ट करें) []	
	लदान का पोर्ट <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []				
माल उतराईका पोर्ट <input type="checkbox"/>	सी.शु.अधिन. की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर <input type="checkbox"/>				
क्र.सं.	मार्क तथा पैकेजों का प्रकार सं.	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य	
कुल भार	तथा सं. कंटेनर सं.				
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यातमूल्य का विश्लेषण		मुद्रा		धनराशि	
एफओबी मूल्य				पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करने की उम्मीद करता है।	
भाड़ा				मुद्रा.....	
बीमा		दर		धनराशि	
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					

आगम बिल सं. एवं तिथि	जलयान का नाम तथा रोटेशन सं.	पैकेजों की सं.	बॉण्ड सं. तथा तिथि	बॉण्डेड भाँडागार का नाम
घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि				

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल

मूल

	प्रस्तुत दस्तावेज 1. इनवायस [] 2. पैकिंग सूची 3. मॉगपत्र 4. संविदा की स्वीकृति 5. साख पत्र 6. क्यू सी प्रमाणपत्र 7. अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)
--	---

फॉर्म एसबी IV

(विनियम 3 को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

अनुलिपि

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राईवेट	इनवायस सं. एवं तिथि	एसबी सं. तथा तिथि
		आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)		वस्तुओं का मूल राज्य
सीमाशुल्क ब्रोकर्स लायसेंस नं.		स्थगित क्रेडिट [] संयुक्त उद्यम [] रूपया क्रेडिट [] अन्य [] आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि
लारी सं./मालगाड़ी तथा वेंगन सं.से चलने वाली	शिपमेन्ट का प्रकार :
		सीधी बिक्री [] कनसाइनमेन्ट निर्यात [] अन्य(विनिर्दिष्ट करें) []

		स्थल सीमाशुल्क स्टेशन <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
डिलीवरी का स्थान <input type="checkbox"/>		सी.शु.अधिन० की धारा 14 के अंतर्गत विनियम दर <input type="checkbox"/>			
क्र.सं.	मार्क तथा पैकेजों का प्रकार सं. तथा सं. कंटेनर	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य _____	
कुल भार	सं.				
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यातमूल्य का विश्लेषण		मुद्रा	धनराशि	पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करने की उम्मीद करता है।	
एफओबी मूल्य				मुद्रा.....	
भाड़ा				धनराशि	
बीमा		दर			
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					
आगम बिल सं. एवं तिथि		जलयान का नाम तथा रोटेशन सं.	पैकेजों की सं.	बॉण्ड सं. तथा तिथि	बॉण्डेड भाँडागार का नाम
घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीबी तथा तिथि					

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

अनुलिपि

	प्रस्तुत दस्तावेज 1. इनवायस [] 2. पैकिंग सूची 3. माँगपत्र 4. संविदा की स्वीकृति 5. साख पत्र 6. क्यू सी प्रमाणपत्र 7. अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)
--	---

‘लैंट एक्सपोर्ट’		‘शिपमेन्ट के लिए अनुज्ञात’	
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर		सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	
मूल एण्ट्री से जाँचने के बाद जलयान का नाम बदल दिया जाये किया जाये		फीस रु.बहिष्कृत अथवा न भेजे गए भाग के लिएको नया प्रदान प्राप्त किया	
सीबी/पार्टी को सौंपा गया	सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर	कैशियर	
बोर्ड पर प्राप्त सामग्री तिथि जलयान के मास्टर के हस्ताक्षर		शिपमेन्ट की तिथि सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	
जाँच आदेश तथा रिपोर्ट			

फार्म एसबी IV

(विनियम 3को देखें)

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बिल

तीसरी प्रति

निर्यातक, सरकारी हैं अथवा प्राईवेट		इनवायस सं. एवं तिथि	एसबी सं. तथा तिथि	
			आयात/निर्यात कोड सं. [जीएसटीआईएन/यूआईएन/पैन इत्यादि, यथा प्रयोज्य]	
प्रेषणी (यदि खदीददार से भिन्न है)			वस्तुओं का मूल राज्य	
सीमाशुल्क ब्रोकर्स लायसेंस नं.		शिपमेन्ट का प्रकार :	स्थगित क्रेडिट []	
			संयुक्त उद्यम []	
			रूपया क्रेडिट []	
लारी सं./मालगाड़ी तथा वेंगन सं.से चलने वाली		अन्य []	
			आरबीआई का अनुमोदन/परिपत्र सं. एवं तिथि	
			सीधी बिक्री []	
			कनसाइनमेन्ट निर्यात []	
			अन्य (विनिर्दिष्ट करें) []	
स्थल सीमाशुल्क स्टेशन				
<input type="checkbox"/>				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				

माल उतारने का पोर्ट <input type="text"/>		सी.शु.अधिन.की धारा 14 के अंतर्गत विनिमय दर <input type="text"/>		मुद्रा इनवाइस	
क्र.सं.	मार्क तथा सं.	पैकेजों का प्रकार तथा सं. कंटेनर सं.	2[सांख्यिकीय कोड , वस्तुओं का विवरण, तथा एफटीपी योजना कोड, जहाँ लागू हो]	मात्रा	मूल्य <hr/>
कुल भार					
सकल भार					
कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
निर्यातमूल्य का विश्लेषण		मुद्रा		धनराशि	
एफओबी मूल्य				पूर्ण निर्यात मूल्य अथवा जहाँ पता लगाने योग्य नहीं है, वह मूल्य जिसे वस्तुओं की बिक्री पर निर्यातक प्राप्त करनेकी उम्मीद करता है।	
भाड़ा				मुद्रा.....	
बीमा		दर		धनराशि	
कमीशन					
छूट					
अन्य कटौतियाँ					
बॉण्डेड वस्तुओं के आयात विवरण					
आगम बिल सं. एवं तिथि		जलयान का नाम तथा रोटेसन सं.	पैकेजों की सं.	बॉण्ड सं. तथा तिथि	बॉण्डेड भाँडागार का नाम
घोषणा : मैं/हम घोषणा करते हैं कि इसमें दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं/हम एमईआईएस के अंतर्गत पारितोषिक का दावा करना चाहते हैं। मैं/हम खण्ड सं.....सार्वजनिक सूचना सं.....दिनांक.....के अंतर्गत घोषणा(ओं) को भी संलग्न करते हैं निर्यातक के हस्ताक्षर/सीवी तथा तिथि					

एक्स बॉण्ड शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए शिपिंग बिल
(निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि) तृतीय प्रति

भेजे गये.....केसेज/वेल्स /पैकेजों/कन्टेनरों के लिए द्वारा जारीकी मेट की रसीद सं.....को सत्यापित किया गया। जो निवारक पर्यवेक्षण के अधीन.....से.....को रवाना हुए सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
--

[फा. सं. 450/108/2017- सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 60/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 जून 2017, को सा.का.नि. 729 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2019

No. 25 /2019-Customs (N.T.)

G.S.R.239(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sections 50 and 60 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board hereby makes the following regulations to amend the Shipping Bill and Bill of Exports (Forms) Regulations, 2017, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017, under regulation 2, for Form SBI and under regulation 3 for Form III, the following Forms shall be substituted, namely :-

“Form SB I

*(See regulation 2)***SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS***Original*

SB No. & Date	Customs Station Code	IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]
Exporter Name & Address	Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.
Pre-Carriage by	Vessel/Flight No.	Port of Loading
Place of Receipt by Pre-Carrier	Rotation No.	Port of Discharge/Country of Discharge

Foreign Exchange Details:

Authorized Dealer Code

RBI Waiver No. &
Date, if any**Commercial Invoice Details:[To be provided separately for each Invoice]**Commercial Invoice
Nos. & date

Invoice Value

Currency of Invoice

Exchange Rate U/S 14
of Customs ActTotal Value
(in Rupees)

INCOTERM

Analysis of Export Value

Currency

Amount

Nature of Payment

- i. FOB
- ii. Freight
- iii. Insurance
- iv. Commission
- v. Discount
- vi. Other Deductions

Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]

Nature of Cargo

Gross Weight

Net Weight

No. and kind of packages

Marks & Nos.

Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]

Sl. No.

Description of goods

Quantity
Code

Quantity

Unit Value

Total value of Item

Total

-

-

-

Item Level Details for the Shipping Bill:Sl.
No.Marks
&
Nos.No. and
kind of
packagesDescription
of Goods

UQC

Quantity

Unit
ValueTotal
ValuePMV
(Where
applicable)Statistical
CodeScheme
Code

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

Export duty related details, if any:

Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Export Duty & Cess Amount (In numbers & words)	Duty payment particulars
			Rate	Amount	Rate	Amount		

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods descript- tion	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compen- sation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compen- sation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compen- sation Cess Paid

Export Scheme/Job Work /Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/ UIN/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization

B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Authorization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION

C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION

D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]

B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage

E. Exports under claim of drawback under section 74:

Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Description of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identification numbers at the time of	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation
----------------------------------	----------------------------	---	---	---	----------------------------------	--	--------------------------------------

				import			
Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]							
Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.			
<p>Declaration :</p> <p>I/We declare that all particulars given herein are true and correct.</p> <p>I/We intend to claim rewards under MEIS.</p> <p>I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...</p> <p>Public Notice No.Dated..... Signature of Exporter/CB & Date</p>							

SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS*Original***DOCUMENTS SUBMITTED**

1. Invoice []
2. Packing List []
3. Export License []
4. Indent []
5. Acceptance of Contract []
6. Letter of Credit []
7. QC Certificate []
8. Port Trust Document []
9. Any other (Specify) []

Form SB I
(See regulation 2)
SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS

Duplicate

SB No. & Date	Customs Station Code		IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]	
Exporter Name & Address		Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.	
Pre-Carriage by	Vessel/Flight No.		Port of Loading	
Place of Receipt by Pre-Carrier	Rotation No.		Port of Discharge/Country of Discharge	
<u>Foreign Exchange Details:</u>				
Authorized Dealer Code		RBI Waiver No. & Date, if any		
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>				
Commercial Invoice Nos. & date	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of Customs Act	Total Value (in Rupees)
INCOTERM	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Analysis of Export Value Currency Amount </div>			
Nature of Payment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> i. FOB ii. Freight </div>			

	iii. Insurance iv. Commission v. Discount vi. Other Deductions									
<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Nature of Cargo	Gross Weight	Net Weight								
No. and kind of packages	Marks & Nos.									
<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item					
Total	-		-	-						
<u>Item Level Details for the Shipping Bill:</u>										
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code
Total	-		-	-		-		-	-	-
<u>Export duty related details, if any:</u>										
Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Duty & Amount (In numbers & words)	Export Cess (In & words)	Duty payment particulars	
			Rate	Amount	Rate	Amount				
<u>IGST Details:</u>										
Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable		Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)				Details of Bond or LUT			

Total Value of Supply of Goods		Taxable value of supply of goods								
Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid
<u>Export Scheme/Job Work /Re-export Details:</u>										
A. EPCG Scheme [Scheme Code]:										
Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/UI N/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'		Authorization No. and Date		Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization				
B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:										
Item Sl. No. in the shipping Bill	Authorization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION			

C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION

D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]

B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage

E. Exports under claim of drawback under section 74:

Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Description of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identification numbers at the time of import	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]

Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.

Declaration :

I/We declare that all particulars given herein are true and correct.

I/We intend to claim rewards under MEIS.

I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...

Public Notice No.Dated.....

Signature of Exporter/CB & Date

SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS

Duplicate

<p>I/We claim drawback of Rs. under Sec. 74/75 of Customs Act, 1962 and Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995/ Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017. I/We certify that the export goods are new/used for I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.</p> <p>1. Name and Address of Bank</p> <p>2. Account No. 3. DBK Ledger No.</p>				<p>Documents Submitted</p> <p>1. Invoice []</p> <p>2. Packing List []</p> <p>3. Export License []</p> <p>4. Indent []</p> <p>5. Acceptance of Contract []</p> <p>6. Letter of Credit []</p> <p>7. QC Certificate []</p> <p>8. Port Trust Document []</p> <p>9. Any Other Document (specify) []</p>				
Item No. in S/B	S.No. of Dbk Schedule	Qty./Wt. on which Dbk claimed	Value on which Dbk claimed	Rate of Dbk		Amount of Dbk		Total Dbk
				Customs	Excise	Customs	Excise	
<p>Total Amount in words: Rupees</p> <p style="text-align: center;">Signature of Exporter/CB</p>								
<p>‘LET EXPORT’</p> <p style="text-align: center;">Signature of Officer of Customs</p>				<p>‘ALLOWED FOR SHIPMENT’</p> <p style="text-align: center;">Signature of Officer of Customs</p>				
<p>Vessel's name may be altered after check with original Entry for</p>				<p>Fee Rs.</p>				

Fresh one may be granted to For the portion shutout or not shipped <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Received</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> Handed over to CB./Party Signature of Asstt. Commissioner of Customs Cashier </div>		
Contents Received on Board Date Signature of Master of Vessel	Date of Shipment Signature of Officer of Customs	
Examination Order and Report		

Form SB I
(See regulation 2)
SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS

Triplicate

SB No. & Date	Customs Station Code		IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]
Exporter Name & Address 	Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.	
Pre-Carriage by	Vessel/Flight No.		Port of Loading
Place of Receipt by Pre-Carrier	Rotation No.		Port of Discharge/Country of Discharge
<u>Foreign Exchange Details:</u>			
Authorized Dealer Code	RBI Waiver No. & Date, if any		

Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]																												
Commercial Invoice Nos. & date	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of Customs Act	Total Value (in Rupees)																								
INCOTERM	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Analysis of Export Value</td> <td style="width: 10%;">Currency</td> <td style="width: 60%;">Amount</td> </tr> </table>										Analysis of Export Value	Currency	Amount															
Analysis of Export Value	Currency	Amount																										
Nature of Payment	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">i. FOB</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>ii. Freight</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii. Insurance</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>iv. Commission</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v. Discount</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vi. Other Deductions</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										i. FOB			ii. Freight			iii. Insurance			iv. Commission			v. Discount			vi. Other Deductions		
i. FOB																												
ii. Freight																												
iii. Insurance																												
iv. Commission																												
v. Discount																												
vi. Other Deductions																												
Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]																												
Nature of Cargo				Gross Weight			Net Weight																					
No. and kind of packages				Marks & Nos.																								
Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]																												
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item																							
Total	-	-		-																								
Item Level Details for the Shipping Bill:																												
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code																		
Total	-		-	-		-		-	-	-																		

Export duty related details, if any:

Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Export Duty & Cess Amount (In numbers & words)	Duty payment particulars
			Rate	Amount	Rate	Amount		

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value Of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid

Export Scheme/Job Work /Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/U IN/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization

B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Authori- zation No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION

C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION

D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]

B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage

E. Exports under claim of drawback under section 74:

Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Description of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identifi- cation numbers at the	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation
----------------------------------	----------------------------	---	---	---	----------------------------------	--	--------------------------------------

				time of import			
Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]							
Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.			
<p>Declaration :</p> <p>I/We declare that all particulars given herein are true and correct.</p> <p>I/We intend to claim rewards under MEIS.</p> <p>I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...</p> <p>Public Notice No.Dated..... Signature of Exporter/CB & Date</p>							

SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS*Triplicate*

I/We claim drawback of Rs. under Sec. 74/75 of Customs Act, 1962 and Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995/ Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017. I/We certify that the export goods are new/used for I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.				Documents Submitted			
1. Name and Address of Bank				1. Invoice []			
2. Account No. 3. DBK Ledger No.				2. Packing List []			
				3. Export License []			
				4. Indent []			
				5. Acceptance of Contract []			
				6. Letter of Credit []			
				7. QC Certificate []			
				8. Port Trust Document []			
				9. Any Other Document (specify) []			
Item	S.No. of	Qty./Wt.	Value on	Rate of Dbk	Amount of Dbk	Total	

No. in S/B	Dbk Schedule	on which Dbk claimed	which Dbk claimed					Dbk
				Customs	Excise	Customs	Excise	
Total Amount in words: Rupees								
Signature of Exporter/CB								
FOR DEPARTMENT OFFICER				PRE-RECEIPT FORM				
Verified that the amount of DBK as claimed above is admissible subject to description found correct on the basis of physical examination/test etc.				Received the sum of Rs. as drawback				
Signature of A.O. & Stamp				REVENUE STAMP				
Calculation Checked.				Signature of Exporter/CB				
Comptist								
'LET EXPORT'				'ALLOWED FOR SHIPMENT'				
Signature of Officer of Customs				Signature of Officer of Customs				
Claim Pre-audited for Sanction				Claimed passed for Rs.....				
Inspector(Audit)				Supdt./AC				
Claim Registration No.....Issued Cheque No.....Dated.....								
For Rs.(Rupees.....)								
Dealing Clerk				Officer				
Examination Order and Report								

Form SB I
(See regulation 2)
SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS
(EXPORT PROMOTION COPY)

Quadruplicate

SB No. & Date	Customs Station Code	IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]		
Exporter Name & Address	Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.		
Pre-Carriage by	Vessel/Flight No.	Port of Loading		
Place of Receipt by Pre-Carrier	Rotation No.	Port of Discharge/Country of Discharge		
<u>Foreign Exchange Details:</u>				
Authorized Dealer Code	RBI Waiver No. & Date, if any			
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>				
Commercial Invoice Nos. & date	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of Customs Act	Total Value (in Rupees)

INCOTERM	Analysis of Export Value		Currency	Amount
	i. FOB			
	ii. Freight			
	iii. Insurance			
Nature of Payment	iv. Commission			
	v. Discount			
	vi. Other Deductions			

<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>		
Nature of Cargo	Gross Weight	Net Weight
No. and kind of packages	Marks & Nos.	

<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>					
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item
Total	-	-		-	

<u>Item Level Details for the Shipping Bill:</u>										
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code
Total	-		-	-		-		-	-	-

<u>Export duty related details, if any:</u>							
Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty	Cess	Total Duty & Amount numbers	Export Cess (In &)	Duty payment particulars

						words)	
			Rate	Amount	Rate	Amount	

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid

Export Scheme/Job Work /Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/ UIN/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization

B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Autho- rization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION
C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION		
D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]							
B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage	
E. Exports under claim of drawback under section 74:							
Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Descrip- tion of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identifi- cation numbers at the time	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

				of import			
Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]							
Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.		Seal No.		
<p>Declaration :</p> <p>I/We declare that all particulars given herein are true and correct.</p> <p>I/We intend to claim rewards under MEIS.</p> <p>I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...</p> <p>Public Notice No.Dated..... Signature of Exporter/CB & Date</p>							

SHIPPING BILL FOR EXPORT OF GOODS
(EXPORT PROMOTION COPY)

Quadruplicate

<p>Verified Mate's Receipt No.</p> <p>ofIssued by.....For.....Cases/Bales/Packages/Containers.....Shipped per..... which sailed on.....</p> <p>From.....</p> <p>Under Preventive Supervision</p> <p align="right">Signature of Officer of Customs</p> <p align="center">OR</p> <p>Shipment declared on this Shipping Bill has been air-freighted on</p> <p>Flight No..... Dated.....</p>
--

AWB No.....EGM No.....

Under Preventive Supervision in full/part (specify quantity air-freighted)

Signature of Officer of Customs

Form SB III

SB III
(See regulation 3)
BILL FOR EXPORT FOR GOODS

Original

SB No. & Date	Customs Station Code	IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]
Exporter Name & Address	Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.
Lorry No./Goods Train & Wagon No.	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Originating From</div> <div style="padding: 5px;">Land Customs Station</div> <div style="padding: 5px;">Others (specify)</div>	Place of Delivery

<u>Foreign Exchange Details:</u>										
Authorized Dealer Code				RBI Waiver No. & Date, if any						
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Commercial Invoice Nos. & date		Invoice Value		Currency of Invoice		Exchange Rate U/S 14 of Customs Act		Total Value (in Rupees)		
INCOTERM		Analysis of Export Value		Currency		Amount				
		i. FOB								
		ii. Freight								
		iii. Insurance								
Nature of Payment		iv. Commission								
		v. Discount								
		vi. Other Deductions								
<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Nature of Cargo				Gross Weight		Net Weight				
No. and kind of packages				Marks & Nos.						
<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item					
Total	-	-		-						
<u>Item Level Details for the Shipping Bill:</u>										
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of	Description of	UQC	Quantity	Unit	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code

		pack- ages	Goods			Value				
Total	-		-	-		-		-	-	-

Export duty related details, if any:

Sl. No.	Custo ms Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Duty & Amount (In numbers words)	Export & Cess (In &	Duty payment particulars
			Ra te	Amount	Rate	Amount			

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods descript- tion	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compen- sation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compe- nsation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compens- ation Cess Paid

Export Scheme/Job Work/Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/UI N/PAN etc] of manufacturer in case of 'third	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	---

		Party Export'					
B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Authori- zation No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION
C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION		
D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]							
B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage	
E. Exports under claim of drawback under section 74:							
Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Descript ion of goods as per the Bill of	Marks and Identificatio n numbers at the time	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

			Entry	of import			
<u>Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]</u>							
Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.		Seal No.		
<p>Declaration :</p> <p>I/We declare that all particulars given herein are true and correct.</p> <p>I/We intend to claim rewards under MEIS.</p> <p>I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...</p> <p>Public Notice No.Dated.....</p> <p>Signature of Exporter/CB & Date</p>							

BILL OF EXPORT FOR GOODS*Original***DOCUMENTS SUBMITTED**

1. Invoice []
2. Packing List []
3. Export License []
4. Indent []
5. Acceptance of Contract []
6. Letter of Credit []
7. QC Certificate []
8. Any other (Specify) []

SB III
(See regulation 3)
BILL FOR EXPORT FOR GOODS

Duplicate

SB No. & Date	Customs Station Code		IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]	
Exporter Name & Address		Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.	
Lorry No./Goods Train & Wagon No.	Originating From		Place of Delivery	
	Land Customs Station			
	Others (specify)			
<u>Foreign Exchange Details:</u>				
Authorized Dealer Code		RBI Waiver No. & Date, if any		
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>				
Commercial Invoice Nos. & date	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of Customs Act	Total Value (in Rupees)
INCOTERM	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Analysis of Export Value Currency Amount </div> <div style="margin-top: 10px;"> i. FOB ii. Freight </div>			

Nature of Payment	iii. Insurance iv. Commission v. Discount vi. Other Deductions									
<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Nature of Cargo	Gross Weight	Net Weight								
No. and kind of packages	Marks & Nos.									
<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item					
Total	-	-		-						
<u>Item Level Details for the Shipping Bill:</u>										
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code
Total	-		-	-		-		-	-	-
<u>Export duty related details, if any:</u>										
Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Duty & Amount (In numbers words)	Export Cess (In &)	Duty payment particulars	
			Rate	Amount	Rate	Amount				

<u>IGST Details:</u>										
Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)		Total amount of IGST paid, if applicable			Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)			Details of Bond or LUT		
Total Value of Supply of Goods		Taxable value of supply of goods								
Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid
<u>Export Scheme/Job Work/Re-export Details:</u>										
A. EPCG Scheme [Scheme Code]:										
Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/UI N/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'			Authorization No. and Date			Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization		
B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:										
Item Sl. No. in the shipping Bill	Authorization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in		Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous		SION	

				the Authorization			

C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION

D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]

B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage

E. Exports under claim of drawback under section 74:

Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Description of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identification numbers at the time of import	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]

Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.

Declaration :

I/We declare that all particulars given herein are true and correct.

I/We intend to claim rewards under MEIS.

I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...

Public Notice No.Dated.....

Signature of Exporter/CB & Date

BILL OF EXPORT FOR GOODS*Duplicate*

I/We claim drawback of Rs. under Sec. 74/75 of Customs Act, 1962 and Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995/ Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017. I/We certify that the export goods are new/used for I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.				Documents Submitted				
1. Name and Address of Bank				1. Invoice [] 2. Packing List [] 3. Export License [] 4. Indent [] 5. Acceptance of Contract [] 6. Letter of Credit [] 7. QC Certificate [] 8. Any Other Document (specify) []				
2. Account No. 3. DBK Ledger No.								
Item No. in S/B	S.No. of Dbk Schedule	Qty./Wt. on which Dbk claimed	Value on which Dbk claimed	Rate of Dbk		Amount of Dbk		Total Dbk
				Customs	Excise	Customs	Excise	
Total Amount in words: Rupees								
Signature of Exporter/CB								
'LET EXPORT' Signature of Officer of Customs				'ALLOWED FOR DESPATCH' Signature of Officer of Customs				

Carrier's name & Lorry No./Goods Train & Wagon No. may be altered after check with original Entry for Fresh one may be granted to for the portion shutout or not shipped		Fee Rs. Received Handed over to CB./Party Signature of Asstt. Commissioner of Customs Cashier
Contents Received on Board Date For Carrier	Date of Shipment Signature of Officer of Customs	
Examination Order and Report 		

SB III
(See regulation 3)
BILL FOR EXPORT FOR GOODS

Triplicate

SB No. & Date	Customs Station Code	IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]
Exporter Name & Address 	Buyer Name & Address Consignee (if different from Buyer)	Customs Broker & License No.
Lorry No./Goods Train & Wagon No.	Originating From Land Customs Station	Place of Delivery

		Others (specify)			
<u>Foreign Exchange Details:</u>					
Authorized Dealer Code		RBI Waiver No. & Date, if any			
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>					
Commercial Invoice Nos. & date	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of Customs Act	Total Value (in Rupees)	
INCOTERM	Analysis of Export Value Currency Amount i. FOB ii. Freight iii. Insurance iv. Commission v. Discount vi. Other Deductions				
Nature of Payment					
<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>					
Nature of Cargo		Gross Weight	Net Weight		
No. and kind of packages		Marks & Nos.			
<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>					
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item
Total	-	-		-	

Item Level Details for the Shipping Bill:

Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code
Total	-		-	-		-		-	-	-

Export duty related details, if any:

Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Export Duty & Cess Amount (In numbers & words)	Duty payment particulars
			Rate	Amount	Rate	Amount		

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid

Export Scheme/Job Work/Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/UI N/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization

B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Author ization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Expo rt Qua ntity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION

C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION

D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]

B/E No. & Date	Custom s Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage

E. Exports under claim of drawback under section 74:

Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Descript ion of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identificat ion numbers at the time of import	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]

Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.

Declaration :

I/We declare that all particulars given herein are true and correct.

I/We intend to claim rewards under MEIS.

I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...

Public Notice No.Dated.....

Signature of Exporter/CB & Date

BILL OF EXPORT FOR GOODS*Triplicate*

I/We claim drawback of Rs. under Sec. 74/75 of Customs Act, 1962 and Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995/ Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017. I/We certify that the export goods are new/used for I/We certify that I/We have complied with the conditions laid down in the said Rules and the conditions subject to which Drawback Rates are applicable.	Documents Submitted 1. Invoice [] 2. Packing List [] 3. Export License [] 4. Indent [] 5. Acceptance of Contract [] 6. Letter of Credit [] 7. QC Certificate []
1. Name and Address of Bank	

2. Account No.				3. DBK Ledger No.				8.Any Other Document (specify) []			
Item No. in S/B	S.No. of Dbk Schedule	Qty./Wt. on which Dbk claimed	Value on which Dbk claimed	Rate of Dbk		Amount of Dbk		Total Dbk			
				Customs	Excise	Customs	Excise				
Total Amount in words: Rupees											
Signature of Exporter/CB											
FOR DEPARTMENT OFFICER						PRE-RECEIPT FORM					
Verified that the amount of DBK as claimed above is admissible subject to description found correct on the basis of physical examination/test etc.				Calculation Checked.		Received the sum of Rs. as drawback					
Signature of A.O. & Stamp				Comptist		REVENUE STAMP Signature of Exporter/CB					
'LET EXPORT'						'ALLOWED FOR DESPATCH'					
Signature of Officer of Customs						Signature of Officer of Customs					
Claim Pre-audited for Sanction						Claimed passed for Rs.....					
Inspector(Audit)						Supdt./AC					
Claim Registration No.....Issued Cheque No.....Dated.....											
For Rs.(Rupees.....)											

Dealing Clerk	Officer
Examination Order and Report	

SB III
(See regulation 3)
BILL FOR EXPORT FOR GOODS
(EXPORT PROMOTION COPY)

Quadruplicate

SB No. & Date	Customs Station Code	IEC Code [GSTIN/UIN/PAN etc. as applicable]		
Exporter Name & Address	Buyer Name & Address	Customs Broker & License No.		
	Consignee (if different from Buyer)			
Lorry No./Goods Train & Wagon No.	Originating From	Place of Delivery		
	Land Customs Station			
	Others (specify)			
<u>Foreign Exchange Details:</u>				
Authorized Dealer Code	RBI Waiver No. & Date, if any			
<u>Commercial Invoice Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>				
Commercial Invoice Nos. &	Invoice Value	Currency of Invoice	Exchange Rate U/S 14 of	Total Value

date			Customs Act	(in Rupees)						
INCOTERM	Analysis of Export Value	Currency	Amount							
	vii. FOB									
	viii. Freight									
	ix. Insurance									
Nature of Payment	x. Commission									
	xi. Discount									
	xii. Other Deductions									
<u>Cargo Details: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Nature of Cargo	Gross Weight	Net Weight								
No. and kind of packages	Marks & Nos.									
<u>Item Level Details at Invoice level: [To be provided separately for each Invoice]</u>										
Sl. No.	Description of goods	Quantity Code	Quantity	Unit Value	Total value of Item					
Total	-	-		-						
<u>Item Level Details for the Shipping Bill:</u>										
Sl. No.	Marks & Nos.	No. and kind of packages	Description of Goods	UQC	Quantity	Unit Value	Total Value	PMV (Where applicable)	Statistical Code	Scheme Code
Total	-		-	-		-		-	-	-

Export duty related details, if any:

Sl. No.	Customs Tariff Head	Assessable Value under Sec. 14 of CA	Export Duty		Cess		Total Export Duty & Cess Amount (In numbers & words)	Duty payment particulars
			Rate	Amount	Rate	Amount		

IGST Details:

Whether supply meant for export on payment of IGST (Y/N)	Total amount of IGST paid, if applicable	Whether supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST (Y/N)	Details of Bond or LUT
Total Value of Supply of Goods	Taxable value of supply of goods		

Invoice Nos. & Date (Issued under GST Tax Invoice, Credit & Debit Notes Rules 2017)	Item Sr. No.	CTH	Goods description	Value of Supply of Goods	Whether IGST Paid (Y/N)	Whether Compensation Cess Paid (Y/N)	Rate at which IGST Paid	Rate at which Compensation Cess Paid	Amount of IGST Paid	Amount of Compensation Cess Paid

Export Scheme/Job Work/Re-export Details:

A. EPCG Scheme [Scheme Code]:

Item Sl. No. in the shipping Bill	Whether Export is third party Export	IEC[GSTIN/UI N/PAN etc] of manufacturer in case of 'third Party Export'	Authorization No. and Date	Sl. No. of Export item as per the Export Item list in the Authorization

B. Advance Authorisation/DFIA [Scheme Code] [details of inputs used for the manufacture of export goods]:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Author ization No. and Date	Description of the Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Expo rt Quan tity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods and the Sl. No. in the Authorization	Quantity of the inputs consumed	Whether imported or indigenous	SION
C. Export of Goods in anticipation of issue of an Advance Authorisation:							
Item Sl. No. in the shipping Bill	Description of the Export goods	Export Quantity	Name and Description of the inputs consumed in the manufacturing of Export goods	Quantity of the inputs consumed	SION		
D. Job Work Details:[details in relation to import goods worked upon during job work]							
B/E No. & Date	Customs Station Code of Import	Description Of goods imported	Quantity Imported	Quantity consumed in export goods	Bond & BG details	Value Addition in percentage	
E. Exports under claim of drawback under section 74:							
Item Sl.No. in the Shipping Bill	Bill of Entry No. and date	Sl. No. of the goods in the Bill of Entry	Descripti on of goods as per the Bill of Entry	Marks and Identificati on numbers at the time of import	Whether imported goods used(Y/N)	Date of payment/debit of duty on importation	Duty paid at the time of importation

Container Details:[If export cargo is factory stuffed cargo]				
Sl No.	Type of Container	Size of Container	Container No.	Seal No.

Declaration :

I/We declare that all particulars given herein are true and correct.

I/We intend to claim rewards under MEIS.

I/We also attach the declaration(s) under clause No.(s)...

Public Notice No.Dated..... Signature of Exporter/CB & Date

BILL OF EXPORT FOR GOODS
(EXPORT PROMOTION COPY)

Quadruplicate

<p>Verified Railway Receipt No../Lorry Waybill No.Dated.....</p> <p>of</p> <p>issued by</p> <p>For.....Cases/Bales/Packages/Containers.....</p> <p>.....Despatched</p> <p>per..... which left</p> <p>on.....</p> <p>From.....</p> <p>Under Preventive Supervision</p> <p align="right">Signature of Officer of Customs</p>

[F.No. 450/108/2017-Cus.IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note.- The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* Notification number 60/2017-Cus (N.T.) dated the 29th June, 2017 *vide* Notification number G.S.R. 729 (E) dated the 29th June, 2017.